

(संलग्नक-3)

कृपया की गई कार्यवाही से इस मुख्यालय को शीघ्रातिशीघ्र tshq@nic.in पर अवगत कराएँ |

किसी प्रकार की समस्या होने पर निम्न अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है :

1. ADG(TS) 9454400175
2. SPMU, Mr. Pradumn Agrahari, 9044366660
3. Prog. Grade-2, Mr. RAM DOOT SINGH, 7839858257
4. Mr. Sudesh Kumar, 9559221888

अवगत कराना है कि तकनीक_सेवायें मुख्यालय स्तर से BSNL के अतिरिक्त वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने पर लखनऊ स्तर पर टेस्ट किया जा चुका है |

इसे install करने के विभिन्न चरण निम्नवत है :

1. इस हेतु (Mobile/ Internet Dongle etc.) के माध्यम से CCTNS Computers को Internet से Connect किया जाना होगा |
2. इसके पश्चात <https://vpn.nic.in/> से VPN Client Software Download कर Install किया जाना होगा |
3. email में संलग्न सम्बंधित थाने का VPN Certificate को Install किया जाना होगा जिस हेतु Password सलग्न किये गए Excel Sheet में सम्बंधित थाने के सम्मुख वर्णित है |
4. Cisco Any connect Secure Mobility Client जो कि पूर्व में Install किया गया था को open कर sconnect.nic.in Address डाल कर Connect किया जाना होगा |
5. VPN Certificate के Prompt पर cctns@123, Password डाल कर Secure Connection Establish किया जायेगा |
6. इसके पश्चात सम्बंधित कंप्यूटर, CCTNS Server से Connect हो जायेगा |

संलग्न Email में जोन स्तर से सर्टिफिकेट भेजे जा रहे हैं | कृपया जनपद वार excel Sheet एवं VPN सर्टिफिकेट अलग -2 सम्बंधित जनपदों को प्रेषित कराएँ जो सम्बंधित थानों पर उपरोक्तानुसार प्रेषित करने एवं install कराने का कष्ट करें |

साथ ही winrar सॉफ्टवेयर भी प्रेषित है जिसके माध्यम से कॉम्प्रेस फाइल को खोला जायेगा |